

# अर्ली फ्रेंच इमर्शन

## अर्ली फ्रेंच इमर्शन क्या है?

अर्ली फ्रेंच इमर्शन दूसरी भाषा के रूप में फ्रेंच का गहन कार्यक्रम है जो किंडरगार्टन में शुरू होता है और ग्रेड 12 तक जारी रहता है। ग्रेड JK से 3 तक की सभी कक्षा गतिविधियाँ फ्रेंच में संचालित की जाती हैं। कोई विशेष विषय (जैसे स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा) अंग्रेजी में पढ़ाया जा सकता है। ग्रेड 4-8 में, कार्यक्रम को 50% फ्रेंच में पढ़ाया जाएगा और 50% अंग्रेजी में।

## कौन आवेदन कर सकता है?

केवल सितंबर 2022 के लिए, जो बच्चे **जूनियर किंडरगार्टन** या **सीनियर किंडरगार्टन** में प्रवेश करेंगे, वे अर्ली फ्रेंच इमर्शन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

सितंबर 2023 की ओर देखते हुए, अर्ली फ्रेंच इमर्शन के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु जूनियर किंडरगार्टन होगा।

## अर्ली फ्रेंच इमर्शन किसके लिए है?

- ✓ उन परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो घर पर फ्रेंच के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं।
- ✓ हम दृढ़ता से मानते हैं कि सभी छात्र दूसरी भाषा सीखने में सक्षम हैं, इसलिए सभी सीखने की शैलियों और भाषा पृष्ठभूमि के छात्रों का कार्यक्रम में स्वागत और समर्थन किया जाता है।
- ✓ अर्ली फ्रेंच इमर्शन प्रोग्राम उन सभी परिवारों के लिए उपयुक्त है जो फ्रेंच में दक्षता विकसित करने के अवसर में रुचि रखते हैं।



## अर्ली फ्रेंच इमर्शन के लाभ

अर्ली फ्रेंच इमर्शन कार्यक्रम किसी भी भाषा पृष्ठभूमि के छात्रों को फ्रेंच में उच्च स्तर की दक्षता विकसित करने की अनुमति देता है। इस तरह से दूसरी भाषा का अध्ययन करने से छात्रों को कई अन्य लाभ भी प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

- ✓ किसी अन्य भाषा में अध्ययन करने से छात्रों की प्रमुख भाषा के कौशलों में वृद्धि होना साबित किया गया है।
- ✓ भाषा सीखना अन्य संज्ञानात्मक लाभ प्रदान करता है जैसे कि सोच और सीखने के अत्यधिक विकसित कौशल जो छात्र अपने अध्ययन के सभी क्षेत्रों में लागू करते हैं।
- ✓ एक से अधिक भाषाओं में प्रवीणता छात्रों के लिए भविष्य में अवसर के द्वार खोलती है और विभिन्न संस्कृतियों और पहचानों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देती है।
- ✓ द्विभाषी छात्र समग्र रूप से मजबूत संचार कौशल विकसित करते हैं और अतिरिक्त भाषाएं अधिक आसानी से सीख सकते हैं।

## आवेदन जानकारी

अर्ली फ्रेंच इमर्शन कार्यक्रम और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए, कृपया [www.tdsb.on.ca/French](http://www.tdsb.on.ca/French) पर जाएं।

वर्तमान में, अर्ली फ्रेंच इमर्शन प्रोग्राम के लिए आवेदन विंडो प्रत्येक वर्ष **नवंबर** में होती है। किसी दिए गए वर्ष के लिए आवेदन की समय सीमा के बारे में जानकारी के लिए कृपया सितंबर की शुरुआत में वेबसाइट देखें।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि सभी योग्य ऑन-टाइम आवेदकों को कार्यक्रम में प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है, किसी विशेष स्कूल में प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है।

[www.tdsb.on.ca/French](http://www.tdsb.on.ca/French)